

Roll No.-----

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक

Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सिरीज
Question Booklet Series

A

B.A. L.L.B (Fifth Semester) Examination, 2021

BA LLB505

HONOURS PAPER (INSURANCE LAW)

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सिरीज का विवरण यथास्थान सही- सही भरें, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
 2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो उसके द्वारा हल किये गये प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
 4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
 5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
 6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी प्रश्नपुस्तिका बुकलेट एवं ओ०एम०आर० शीट पृथक-पृथक उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
 7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
- महत्वपूर्ण : — प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

1. The life insurance is co-operative device to share the –
(A) Profit
(B) Loss
(C) A & B Both
(D) None of above
2. Life insurance is a business proposition resting on the operation of the –
(A) Law of mortality
(B) Interest
(C) A & B Both
(D) None of above
3. Law of life insurance includes other branches / branch of a Law-
(A) Law of Property
(B) Law of torts
(C) Law of agency
(D) All of above
4. Law of Insurance belongs to the -
(A) Central legislation
(B) State Legislature
(C) A & B Both
(D) None of above
5. Foreign exchange regulation is ----- to the insurance Law.
(A) Applicable
(B) Not applicable
(C) Either A or B
(D) Neither A Nor B
6. Insurance Law incorporate the Prevailing -
(A) Customs
(B) Traditions
(C) A & B Both
(D) Either A or B
7. Nature of Life insurance Contract is / are
(A) Unilateral
(B) Conditional
(C) An Aleatory
(D) All of above
8. There Was no insurance Law in India Prior to -
(A) 1910
(B) 1912
(C) 1936
(D) 1947
9. Who was appointed To revise the insurance legislation(1925)
(A) A. S. Smith
(B) L.C. mehta
(C) A. C Clauson
(D) None of above
1. जीवन बीमा एक सहकारी उपकरण है ,साझा करने के लिये—
(A) लाभ
(B) हानि
(C) A और B दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं ।
2. जीवन बीमा एक व्यावसायिक प्रस्ताव है, जो संचालन पर आधारित है –
(A) मृत्युदर का नियम / विधि
(B) हित
(C) A और B दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं ।
3. जीवन बीमा विधि में विधि की अन्य शाखायें / शाखा भी सम्मिलित है –
(A) सम्पत्ति विधि
(B) अपकृत्य विधियाँ
(C) एजेंसी विधि
(D) उपरोक्त सभी
4. बीमा विधि सम्बंधित / अन्तर्गत है –
(A) केन्द्रीय विधायन
(B) राज्य विधायिका
(C) A और B दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं ।
5. विदेशी मुद्रा विनियमन, बीमा विधि पर है ?
(A) लागू
(B) लागू नहीं
(C) या तो A या B
(D) ना तो A ना ही B
6. बीमा विधि समावेश करती है, प्रचलित
(A) परम्पराओं
(B) मान्यताओं / रिवाजों
(C) A और B दोनों
(D) या तो A या B
7. जीवन बीमा संविदा की प्रकृति है –
(A) एक तरफा / एक पक्षीय
(B) सशर्त
(C) एक भाग्याधीन
(D) उपरोक्त सभी
8. भारत में के पहले कोई बीमा विधि नहीं थी –
(A) 1910
(B) 1912
(C) 1936
(D) 1947
9. बीमा विधायन (1925) के पुनरीक्षण के लिये किसे नियुक्त किया गया –
(A) ए.एस. स्मिथ
(B) एल.सी. मेहता
(C) ए.सी.क्लाउसन
(D) उपरोक्त में कोई नहीं ।

- | | |
|--|---|
| <p>10. Insurance Act of 1938 was enforced Since
 (A) 01 January 1939
 (B) 01 July 1939
 (C) 10 August 1939
 (D) 12 November 1939</p> <p>11. The life Insurance Business was Nationalized on
 (A) 1947
 (B) 1949
 (C) 1950
 (D) 1956</p> <p>12. The general Insurance business had been nationalized in
 (A) 1960
 (B) 1976
 (C) 1972
 (D) 1968</p> <p>13. An Insurance contract Consists Of
 (A) Offer & acceptance
 (B) Consideration
 (C) Legality of object
 (D) All of above</p> <p>14. Case related to offer & acceptance in term of insurance-
 (A) Looker & Another V/s. Law Union & Rock insurance co (1928)
 (B) Raj Narain Das V/s. Mahapatra (1936)
 (C) Northern India insurance Co. V/s. Kanhaiya Lal (1942)
 (D) All of above</p> <p>15. Case related to competency of the Parties for insurance contract -
 (A) Canning V/s. farquahar (1886)
 (B) Harrington V/s. Pearl Life, 1914
 (C) Chandu lal V/s. IT. Commissioner AIR 1967 S . C
 (D) All of above</p> <p>16. Persons of unsound Mind are Defined Under Sec _____ of the Indian Contract Act
 (A) 10
 (B) 11
 (C) 12
 (D) 13</p> <p>17. Free consent of the Parties defined under Sec _____ of the Indian contract Act _____
 (A) 14
 (B) 16
 (C) 18
 (D) 20</p> | <p>10. बीमा अधिनियम 1938के बाद से लागू हुआ—
 (A) 01 जनवरी 1939
 (B) 01 जुलाई 1939
 (C) 10 अगस्त 1939
 (D) 12 नवम्बर 1939</p> <p>11. जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया — में
 (A) 1947
 (B) 1949
 (C) 1950
 (D) 1956</p> <p>12. सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया था—
 (A) 1960
 (B) 1976
 (C) 1972
 (D) 1968</p> <p>13. एक बीमा संविदा में सम्मिलित है—
 (A) प्रस्ताव और स्वीकृति
 (B) प्रतिफल
 (C) विषय की विधिकता
 (D) उपरोक्त सभी</p> <p>14. बीमा के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव तथा स्वीकृति से सम्बन्धित वाद है —
 (A) लूकर और अन्य बनाम ला यूनियन & रॉक इश्योरेंस कम्पनी (1928)
 (B) राज नारायण दास बनाम महापात्रा (1936)
 (C) नार्थन इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी बनाम कन्हैया लाल (1942)
 (D) उपरोक्त सभी</p> <p>15. बीमा संविदा के लिये पक्षकारों की सक्षमता से सम्बन्धित वाद है —
 (A) केनिंग बनाम फर्क्यूहार (1886)
 (B) हेरिंगटन बनाम पर्ल लाइफ 1914
 (C) चन्दू लाल बनाम आई.टी. कमिश्नर ए० आई० आर० 1967 सु० को०
 (D) उपरोक्त सभी</p> <p>16. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा _____ के अन्तर्गत अस्वस्थ चित्त को वर्णित किया गया है —
 (A) 10
 (B) 11
 (C) 12
 (D) 13</p> <p>17. पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा _____में वर्णित किया गया है —
 (A) 14
 (B) 16
 (C) 18
 (D) 20</p> |
|--|---|

18. Case related to free Consent in insurance is --
 (A) Keeling Vs. Pearl Assurance Co. Ltd. (1923)
 (B) Beresford Vs. Royal Insurance Company (1938)
 (C) Harrington Vs. Pearl life (1914)
 (D) None of above
19. The insurable interest in other's Lives may arise due to --
 (A) Business Relationship
 (B) Ties of blood & affection
 (C) A & B Both
 (D) None of above
20. An Insurable interest must be -
 (A) Definite
 (B) Capable of Valuation
 (C) Valid and subsisting
 (D) All of above
21. Case related to time of insurable interest is -
 (A) Dalby Vs. The India & London Life Assurance co. (1854)
 (B) Smicock Vs. Scottish imperia (1902)
 (C) Bland Vs. Indian Life Insurance Co. (1867)
 (D) All of above
22. "Loss Caved by insured's own act may not be re coverable", was held in the Case of -
 (A) Amicable insurance Vs. Bolland
 (B) Rex Vs. Indian Assurance Co.
 (C) Smith Vs. London Assurance Co.
 (D) Baldon Vs. Indian Assurance Co.
23. Insurable interest of an employee in the life of his employer was confirmed in the case of
 (A) Max Vs. Indian Assurance Co. (1917)
 (B) Forgan Vs. Pearl Life Assurance Co. (1907)
 (C) Shilling Vs. Accidental Death (1850)
 (D) Looker Vs. Law Union & Rock insurance Co. (1928)
24. Which is related to Doctrine of almost good faith--
 (A) Uberrimafides
 (B) Ad idem
 (C) Neither A nor B
 (D) A & B Both
25. Case related to doctrine of at most good faith
 (A) Lakshmi insurance co. Vs. Bibi Padmavati, 1961
 (B) Banarsi Devi Vs. NEW Indian Assurance Co., 1959
 (C) Galle Gowns Vs. General Insurance Co. Ltd. 1933
 (D) All of Above
18. बीमा के लिये स्वतंत्र सम्मति से सम्बन्धित वाद है --
 (A) कीलिंग बनाम पर्ल एश्योरेंस क० लि० (1923)
 (B) बेर्स फोर्ड बनाम रायल इश्योरेंस क० (1938)
 (C) हेरिंगटन बनाम पर्ल लाइफ (1914)
 (D) उपरोक्त सभी
19. दूसरों के जीवन में बीमा योग्य हित किसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं
 (A) व्यापार सम्बंध
 (B) रक्त & स्नेह के सम्बंध
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
20. एक बीमा योग्य हित को होना चाहियें?
 (A) निश्चित
 (B) मूल्यांकन में समर्थ / सक्षम
 (C) वैध और संविदा कारक
 (D) उपरोक्त सभी
21. बीमा योग्य हित से सम्बंधित वाद है --
 (A) डाल्बी बनाम द इण्डिया लंदन लाइफ एश्योरेंस क० (1854)
 (B) स्मिकाक बनाम स्काटिश इम्पीरिया (1902)
 (C) बलैण्ड बनाम इण्डिया लाइफ इश्योरेंस क० (1867)
 (D) उपरोक्त सभी
22. किस वाद में निर्धारित किया गया कि "बीमित व्यक्ति के स्वयं के कार्य से हुई हानि वसूली योग्य नहीं हो सकती है"
 (A) एमिकेबल इश्योरेंस बनाम बोलैण्ड
 (B) रेक्स बनाम इण्डियन एश्योरेंस क०
 (C) स्मिथ बनाम लंदन एश्योरेंस क०
 (D) बालडन बनाम इण्डियन एश्योरेंस क०
23. अपने नियोक्ता के जीवन में एक कर्मचारी का बीमा योग्य हित है, सु स्पष्ट किया गया, किस वाद में --
 (A) मैक्स बनाम इण्डियन एश्योरेंस क० (1917)
 (B) फार्गन बनाम पर्ल लाइफ एश्योरेंस क० (1907)
 (C) शिलिंग बनाम एक्सीडेंटल डेथ (1850)
 (D) लूकर बनाम ला यूनियन & राक इश्योरेंस क० (1928)
24. परम सद्विश्वास के सिद्धान्त से सम्बंधित है --
 (A) उबरिम्माफिडस (प्रकटन)
 (B) एडइडम (व्यपदेशन)
 (C) ना तो A न ही B
 (D) A और B दोनों
25. परम सद्विश्वास के सिद्धान्त से सम्बंधित वाद है --
 (A) लक्ष्मी इश्योरेंस क० बनाम बीबी पद्मावती (1961)
 (B) बनारसी देवी बनाम न्यू इण्डियन एश्योरेंस क० 1959
 (C) गैल्ले ग्राउनस बनाम जनरल इश्योरेंस क० लि० 1933
 (D) उपरोक्त सभी

26. Doctrine of almost Good faith is related to --
 (A) Duty of both Parties
 (B) Material Facts
 (C) Extent of the duty
 (D) All of above
27. Warranties shall be incorporated in policy
 (A) Expressly
 (B) By reference
 (C) A & B both
 (D) Either A or B
28. The marine Insurance Act, 1906 , defines warranty as a Statement Under Section
 (A) 31
 (B) 32
 (C) 33
 (D) 34
29. If any Statement of the proposal form is untrue the contract shall be null and void, held in the case of
 (A) Harrington Vs. Pearl Life (1914)
 (B) L.K. Smith Vs. Rock Insurance (1928)
 (C) Canning Vs. Farquhar (1886)
 (D) Provincial Insurance Vs. Morgan (1933)
30. Kinds of Warranty are
 (A) Warranty of fact
 (B) Warranty of Belief
 (C) A & B both
 (D) None of above
31. Case related to warranty -
 (A) Merchant & Manufactureess Insurance company Vs. Hant (1941)
 (B) Joel Vs. Law union (1908)
 (C) Grant Vs. Ajanta Insurance (1862)
 (D) All of above
32. For insurance Contract , Representation
 (A) Should be substantially correct
 (B) Will not be necessarily in Corporated in the policy
 (C) A & B both
 (D) None of above
33. The meaning of fire in fire insurance is -
 (A) Actual fire
 (B) Fortuitous in Nature
 (C) A & B both
 (D) None of above
26. परम सदविश्वास का सिद्धांत सम्बंधित है -
 (A) दोनों पक्षकारों की जिम्मेदारी / कर्तव्य
 (B) भौतिक (मूल) तथ्य
 (C) कर्तव्य की सीमा
 (D) उपरोक्त सभी
27. पालिसी में वारण्टी को सम्मिलित करना चाहिये-
 (A) स्पष्ट रूप से
 (B) संदर्भ द्वारा
 (C) A और B दोनों
 (D) या तो A या B
28. समुद्री बीमा अधिनियम 1906 की धारा वारण्टी को एक कथन वर्णित किया गया है -
 (A) 31
 (B) 32
 (C) 33
 (D) 34
29. यदि प्रस्ताव प्रपत्र का कोई कथन असत्य है तो संविदा शून्य तथा अमान्य होगी, निर्धारित किया गया, वाद में
 (A) हेरिंगटन बनाम पर्ल लाइफ (1914)
 (B) एल.के. स्मिथ बनाम राक इश्योरेंस (1928)
 (C) केनिंग बनाम फर्कुहार (1886)
 (D) प्रोविशियल इश्योरेंस बनाम मॉर्गन (1933)
30. वारण्टी के प्रकार हैं -
 (A) तथ्य की वारण्टी
 (B) विश्वास की वारण्टी
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
31. वारण्टी से सम्बंधित वाद है -
 (A) मर्चेंट & मेन्युफेक्चर्स इश्योरेंस क0 बनाम हाट (1941)
 (B) जोएल बनाम लॉ यूनियन (1908)
 (C) ग्रेंट बनाम अजन्ता इश्योरेंस (1862)
 (D) उपरोक्त सभी
32. बीमा संविदा के लिये, प्रतिनिधित्व
 (A) मूलतः सही होना चाहिये ।
 (B) पालिसी में अनिवार्य रूप से सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं ।
33. अग्नि बीमा में आग (अग्नि) का अर्थ है -
 (A) वास्तविक अग्नि
 (B) प्रकृति में आकस्मिक
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं

34. Damage Caused by _____ not covered in fire insurance
(A) Excessive fire heat
(B) Chemical Actions
(C) Due to smoke
(D) All of above
35. The indemnification may been the form of ----
(A) Cash payment
(B) replacement or repair of property
(C) A & B both
(D) None of above
36. The aim of the doctrine of indemnity in fire insurance
(A) To benefited more than loss
(B) To avoid assured from taking profit
(C) A & B both
(D) None of above
37. Who Stated that "The insurance contract is a Contract of indemnity and of indemnity only"
(A) Justice Martin
(B) Justice Brett
(C) P.V. Young
(D) John Finis
38. The subrogation may a rise due to -
(A) Rights arising out of tort
(B) Rights arising out of contract
(C) Rights arising by statute
(D) All of above
39. The right of subrogation is excercisable at Common Law
(A) Before the insurer has paid the claim
(B) after the insurer has paid the claim
(C) A & B both
(D) None of above
40. Proximate cause means the cause
(A) Active
(B) Effective
(C) Efficient
(D) All of above
41. The fire insurance does not cover
(A) Loss of theft during the occurrence of fire
(B) Loss occasioned by convulsions of Nature
(C) A & B both
(D) None of above
42. Differences arises as to the amount of any loss, shall independently referred to decision of
(A) Insurance company
(B) Insured
(C) Arbitrator
(D) All of above
34. अग्नि बीमा के अन्तर्गत _____ द्वारा कारित क्षति आच्छादित नहीं होती ।
(A) अत्यधिक आग गर्मी (तपन)
(B) रासायनिक क्रियायें
(C) धुयें के कारण
(D) उपरोक्त सभी ।
35. क्षतिपूर्ति के रूप हो सकते है -
(A) नकद भुगतान
(B) प्रतिस्थापन या सम्पत्ति की मरम्मत
(C) A और B दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
36. अग्नि बीमा में क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का उद्देश्य है -
(A) नुकसान से ज्यादा फायदा पाने के लिए
(B) बीमित को लाभ लेने से बचने के लिये
(C) A और B दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
37. किसने कहा कि बीमा संविदा केवल क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति की ही संविदा है -
(A) जस्टिस मार्टिन
(B) जस्टिस ब्रेट
(C) पी. बी. यंग
(D) जॉन फिनिश
38. प्रस्थापन/प्रतिस्थापन—के कारण उत्पन्न हो सकता है।
(A) अपकृत्य से उत्पन्न होने वाले अधिकारों
(B) संविदा से उत्पन्न होने वाले अधिकारों
(C) सविधि से उत्पन्न अधिकारों
(D) उपरोक्त सभी ।
39. प्रतिस्थापन का अधिकार कॉमन लॉ में प्रयोग योग्य है—
(A) बीमाकर्ता द्वारा दावे का भुगतान करने से पहले
(B) बीमाकर्ता द्वारा दावे का भुगतान करने के बाद
(C) A और B दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
40. आसन्न कारण का अर्थ है - कारण
(A) सक्रिय
(B) प्रभावी
(C) कुशल/कार्यक्षम
(D) उपरोक्त सभी ।
41. अग्नि बीमा से आच्छादित नहीं है —
(A) आग के दौरान चोरी से क्षति
(B) प्रकृति के आक्षेप से हुई हानि
(C) A & B दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
42. किसी भी नुकसान की राशि के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर स्वतंत्र रूप से निर्णय के लिये संदर्भित किया जायेगा -
(A) बीमा कम्पनी
(B) बीमित
(C) मध्यस्थ
(D) उपरोक्त सभी

43. The comprehensive motor policy is
 (A) Only Liability to third Party
 (B) Only Liability of loss , damage or destruction of vehicle
 (C) Garb of a composite policy covering risks of different Nature
 (D) All of above
44. Types of Insurance coverages for motor vehicle insurance-----
 (A) Act Policy
 (B) Third party Policy
 (C) Comprehensive policy
 (D) All of above
45. Case related to motor vehicle insurance
 (A) Peter Vs. G. A . F. L. A corporation , 1938
 (B) Kelly Vs. Cornhill Insurance company 1964
 (C) National Farmers Union vs. Dawson , (1941)
 (D) All of above
46. Extra benefits in policies on private cars is / are-
 (A) personal Accident Insurance
 (B) Loss of theft / larceny
 (C) A & B both
 (D) None of above
47. Case related to maintaining vehicle in efficient condition
 (A) smith Vs. National Insurance Company (1961)
 (B) National farmers Union Vs. Dawson (1941)
 (C) A & B both
 (D) None of above
48. The premium will have to be adjusted on a pro-RATA basis, in the Condition of
 (A) Settlement of claims
 (B) Negligence of parties
 (C) Change of vehicle
 (D) All of above
49. In motor vehicle insurance, claim shall be deemed to have been abandoned unless the claim is made with in
 (A) 6 months
 (B) 12 months
 (C) 18 months
 (D) 24 months
50. Motor insurance is a
 (A) Contract of indemnity
 (B) Insured is entitled to indemnity only
 (C) That too in the manner stated in the policy
 (D) All of above

43. काम्प्रिहैन्सिव मोटर पालिसी है –
 (A) केवल तीसरे पक्ष के लिये दायित्व
 (B) केवल वाहन के नुकसान ,क्षति या नष्ट होने के लिए दायित्व
 (C) विभिन्न प्रकार के जोखिमों को ढकने वाली एक समग्र पालिसी (व्यापक पालिसी)
 (D) उपरोक्त सभी ।
44. मोटर वाहन बीमा के लिये बीमा आवृत के प्रकार है –
 (A) एक्ट (अंकीय) पालिसी
 (B) तृतीय पक्षकार पालिसी
 (C) समग्र / व्यापक पालिसी
 (D) उपरोक्त सभी
45. मोटर वाहन बीमा से सम्बंधित वाद है
 (A) पीटर बनाम जी ए. एफ. एल. ए. कार्पोरेशन 1938
 (B) केली बनाम कार्न हिल इश्योरेंस कम्पनी 1964
 (C) नेशनल फार्मर्स यूनियन बनाम डावसन 1941
 (D) उपरोक्त सभी ।
46. व्यक्तिगत कार पालिसी में अतिरिक्त लाभ है –
 (A) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
 (B) चोरी से हानि
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
47. उचित / कुशल स्थिति में वाहन को बनाये रखने सम्बंधी वाद है –
 (A) स्मिथ बनाम नेशनल इश्योरेंस कम्पनी (1961)
 (B) नेशनल फार्मर्स यूनियन बनाम डावसन(1941)
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
48. प्रीमियम को आनुपातिक आधार पर समायोजित करना होगा-----की स्थिति में
 (A) दावों का निपटारा
 (B) पक्षकारों की लापरवाही
 (C) वाहन में परिवर्तन
 (D) उपरोक्त सभी ।
49. मोटर वाहन बीमा में दावा छोड़ा हुआ माना जायेगा , जब तक दावा भीतर /अंदर नहीं किया जाता
 (A) 6 माह
 (B) 12 माह
 (C) 18 माह
 (D) 24 माह
50. वाहन बीमा है एक
 (A) क्षतिपूर्ति की अनुबंध
 (B) बीमित केवल क्षतिपूर्ति का अधिकारी है।
 (C) पालिसी में वर्णित तरीके के अनुसार
 (D) उपरोक्त सभी ।

51. Insurance is a device for the transfer of risks of individual entities to an insurer, stated by
 (A) Prof R.S. Sharma
 (B) Prof. Mayorson
 (C) S.A. Morkson
 (D) W.A. Dinsdale
52. Method of reinsurance
 (A) Treaty Insurance method
 (B) Pooling Insurance Method
 (C) A & B both
 (D) None of above
53. Primary function of insurance
 (A) Providing Certainty
 (B) Providing Protection
 (C) Risk Sharing
 (D) All of above
54. Life Insurance was origin in
 (A) America
 (B) China
 (C) Britain
 (D) Japan
55. Term - "Functions of Insurance" related to _____ in vedic literature -----
 (A) Yog kshem
 (B) Yogya Kshem
 (C) Yoga moksha
 (D) Yogya Moksha
56. Facultative reinsurance is
 (A) Compulsory
 (B) Not Compulsory
 (C) Optional
 (D) All of above
57. Contract of a marine insurance is an agreement under section
 (A) 3
 (B) 4
 (C) 10
 (D) 11
58. Format of fire insurance policy
 (A) Format A
 (B) Format B
 (C) Format C
 (D) All of above
59. In motor vehicle insurance company is not liable for any loss if ----
 (A) Incurred outside the geographical area
 (B) Out of contractual liability
 (C) A & B both
 (D) None of above
51. किसने कहा – बीमा व्यक्तिगत सस्थाओं के जोखिमों को बीमा कर्ता को हस्तांतरित करने का उपकरण है ।
 (A) प्रो० आर.एस. शर्मा
 (B) प्रो ० मेयरसन
 (C) एस. ए. मार्कसन
 (D) डब्लू. ए. डिन्सडले
52. पुनर्बीमा की पद्धति है –
 (A) ट्रीटी बीमा पद्धति
 (B) पूलिंग बीमा पद्धति
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
53. बीमा का मुख्य कार्य है ।
 (A) निश्चितता प्रदान करना
 (B) सुरक्षा प्रदान करना
 (C) जोखिम का वितरण
 (D) उपरोक्त सभी
54. जीवन बीमा की उत्पत्ति हुई थी –
 (A) अमेरिका
 (B) चीन
 (C) ब्रिटेन
 (D) जापान
55. वैदिक साहित्य में शब्द " बीमा के कार्य सम्बंधित है—
 (A) योग क्षेम
 (B) योग्य क्षेम
 (C) योग मोक्ष
 (D) योग्य मोक्ष
56. फ़ैकल्टिव पुर्नबीमा करना है –
 (A) अनिवार्य
 (B) अनिवार्य नहीं
 (C) ऐच्छिक
 (D) उपरोक्त सभी
57. समुद्री बीमा की संविदा एक करार है अर्न्तगत धारा
 (A) 3
 (B) 4
 (C) 10
 (D) 11
58. अग्नि बीमा पालिसी के प्रारूप है –
 (A) प्रारूप A
 (B) प्रारूप B
 (C) प्रारूप C
 (D) उपरोक्त सभी ।
59. मोटर वाहन बीमा में कम्पनी नुकसान की जिम्मेदार नहीं होगी , यदि
 (A) भौगोलिक क्षेत्र के बाहर घटित हुआ हो
 (B) संविदात्मक दायित्व से बाहर
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं

60. Which section of the Insurance Act 1938 defines marine insurance
(A) 2 (11) (B)
(B) 3 (12) (C)
(C) 2 (13) (A)
(D) 3 (13) (D)
61. Which is type of marine insurance
(A) Hull Insurance
(B) Cargo Insurance
(C) Freight Insurance
(D) All of above
62. Marine Insurance Covers
(A) Ocean Perils
(B) Inland Perils
(C) A & B both
(D) None of above
63. In Marine Insurance warranty may be
(A) Express
(B) Implied
(C) Promissory
(D) All of above
64. Provisions of marine insurance Act. 1963 are mostly similar to-
(A) English Marine Insurance Act. 1906
(B) English Marine Insurance Act. 1916
(C) American Marine Insurance Act. 1926
(D) All of above
65. Institute of London Under writers created clause for Marine cargo Insurance --
(A) Clause A
(B) Clause B
(C) Clause C
(D) All of above
66. Sec related to evidence for marine insurance contract is
(A) 10
(B) 12
(C) 24
(D) 25
67. In which report Law commission of India requested for requirement of marine Insurance Act?
(A) 11th
(B) 12th
(C) 21th
(D) 25th
60. बीमा अधिनियम 1938 की कौन सी धारा समुद्री बीमा को परिभाषित करती है?
(A) 2 (11) (ख)
(B) 3 (12) (ग)
(C) 2 (13) (क)
(D) 3 (13) (घ)
61. समुद्री बीमा का प्रकार है --
(A) पतवार बीमा
(B) कार्गो बीमा
(C) माल दुलाई बीमा
(D) उपरोक्त सभी ।
62. समुद्री बीमा से आच्छादित है --
(A) समुद्री खतरे
(B) अन्तर्देशीय खतरे
(C) A और B दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
63. समुद्री बीमा में वारण्टी हो सकती है
(A) व्यक्त
(B) गर्भित
(C) प्रतिज्ञात्मक
(D) उपरोक्त सभी
64. सामुद्रिक बीमा अधिनियम ,1963 के प्रावधान मुख्यतः समरूप है --
(A) अंग्रेजी समुद्री बीमा अधिनियम 1906
(B) अंग्रेजी समुद्री बीमा अधिनियम 1916
(C) अमेरिकी समुद्री बीमा अधिनियम 1926
(D) उपरोक्त सभी ।
65. इंस्टीट्यूट ऑफ लन्दन अन्डर राइटर्स द्वारा समुद्री कार्गो के बीमा के सम्बन्ध में खण्ड बनाया --
(A) खण्ड (क)
(B) खण्ड (ख)
(C) खण्ड (ग)
(D) उपरोक्त सभी
66. समुद्री बीमा संधिदा के लिये साक्ष्य से सम्बन्धित धारा है
(A) 10
(B) 12
(C) 24
(D) 25
67. भारतीय विधि आयोग ने अपनी किस रिपोर्ट में समुद्री बीमा अधिनियम की आवश्यकता पर बल दिया ।
(A) 11 वीं
(B) 12 वीं
(C) 21 वीं
(D) 25 वीं

68. Institute cargo clauses 'A' is known as -
 (A) Total Risk Policy
 (B) Risk Policy
 (C) A & B both
 (D) None of above
69. In Marine Insurance implied warranties are
 (A) Normal
 (B) Important
 (C) Very Important
 (D) None of above
70. Provisions regarding strike in marine Insurance 1963 are defined in Sec.
 (A) 05
 (B) 06
 (C) 07
 (D) 08
71. Risk which cannot be covered under marine insurance, after payment of excess premium are defined in Sec of Act – 1963
 (A) 2
 (B) 3
 (C) 4
 (D) 5
72. It is mandatory for motor Vehicle owner to insured third party under Act_
 (A) Insurance Act 1938
 (B) motor vehicle Act 1988
 (C) A & B both
 (D) None of above
73. Term 'Jettison is related to'
 (A) Life Insurance
 (B) Marine Insurance
 (C) Fire Insurance
 (D) motor vehicle Insurance
74. Both to blame collusion is related to
 (A) Fire Insurance
 (B) Marine Insurance
 (C) A & B both
 (D) None of above
75. Provisions related to speed limit of motor vehicle are described in
 (A) Sec-112 motor vehicle Act 1988
 (B) Sec-71 motor vehicle Act 1939
 (C) A & B both
 (D) None of above
68. इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेज 'क' को कहा जाता है –
 (A) सर्व जोखिम पालिसी
 (B) जोखिम पालिसी
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
69. समुद्री बीमा में निहित गारण्टी है –
 (A) सामान्य
 (B) महत्वपूर्ण
 (C) बहुत महत्वपूर्ण
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं।
70. समुद्री बीमा अधिनियम की धारा----- में हड़ताल से सम्बंधित प्रावधान है।
 (A) 05
 (B) 06
 (C) 07
 (D) 08
71. वे जोखिम जिनको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने के बाद भी समुद्री बीमा में भी आवरित नहीं किया जा सकता, वर्णित है धारा में, अधिनियम 1963 की।
 (A) 2
 (B) 3
 (C) 4
 (D) 5
72. किस अधिनियम के अन्तर्गत मोटर वाहन स्वामी के लिये तृतीय पक्षकार का बीमा कराना अनिवार्य है –
 (A) बीमा अधिनियम 1938
 (B) मोटर वाहन अधिनियम 1988
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
73. शब्द जेटिशन सम्बंधित है – से
 (A) जीवन बीमा
 (B) समुद्री बीमा
 (C) अग्नि बीमा
 (D) मोटर वाहन बीमा
74. "दोनों दोषी टक्कर" सम्बंधित है –
 (A) अग्नि बीमा
 (B) समुद्री बीमा
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
75. मोटर यान की गति सीमा सम्बंधी प्रावधान वर्णित है–
 (A) धारा 112 मोटर यान अधिनियम 1988
 (B) धारा 71 मोटर यान अधिनियम 1939
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं

76. The insurance regulatory and development authority of India is under the Jurisdiction of Government of India.
 (A) Ministry of finance
 (B) Law ministry
 (C) A & B both
 (D) None of above
77. After year 2001 Head quarter of IRDA is in ..
 (A) Delhi
 (B) Hyderabad (Telangana)
 (C) Bombay (Mumbai)
 (D) Chennai
78. After establishment LIC absorbed
 (A) 154 Indian Insurers
 (B) 16 Non-Indian Insurers
 (C) 75 Provident Societies
 (D) All of above
79. Composition of the Authorities of IRDA are specifies in which section of IRDAI Act – 1999?
 (A) 03
 (B) 04
 (C) 05
 (D) 06
80. Provisions regarding minimum speed of motor vehicle is defined in
 (A) Sec 71 of motor vehicle Act 1939
 (B) Sec 112 of motor vehicle Act 1939
 (C) Sec 71 of motor vehicle Act 1988
 (D) Sec 112 of motor vehicle Act 1988
81. The functions of IRDA are defined in section---- of the IRDAI Act, 1999
 (A) 12
 (B) 13
 (C) 14
 (D) 16
82. In the year of 2013 , IRDA attempted to raise the foreign direct limit in the insurance sector to _____ Percent from its current 26 Percent
 (A) 37
 (B) 41
 (C) 49
 (D) 57
83. Foreign Direct Investment Limit in insurance Sector Has been raised to _____ Percent according to the Union Budget (2021)
 (A) 50
 (B) 65
 (C) 70
 (D) 74
76. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिकार क्षेत्र में है, भारत सरकार
 (A) वित्त मंत्रालय
 (B) कानून (विधि) मंत्रालय
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
77. वर्ष 2001 के बाद आइ.आर.डी.ए. का मुख्यालय आ गया है—
 (A) दिल्ली
 (B) हैदराबाद(तेलंगाना)
 (C) बम्बई(मुम्बई)
 (D) चेन्नई
78. स्थापना के पश्चात एल.आई.सी ने अवशोषित कर लिया—
 (A) 154 भारतीय बीमाकर्ता
 (B) 16 गैर भारतीय बीमाकर्ता
 (C) 75 भविष्य (निर्वाह) समितियाँ
 (D) उपरोक्त सभी
79. इरडा के प्राधिकारियों की संरचना / गठन इरडा अधिनियम 1999 की किस धारा में निर्दिष्ट है?
 (A) 03
 (B) 04
 (C) 05
 (D) 06
80. मोटर वाहन की निम्नतम गति के सम्बंध में प्रावधान है?
 (A) धारा 71 मोटर यान अधिनियम 1939
 (B) धारा 112 मोटर यान अधिनियम 1939
 (C) धारा 71 मोटर यान अधिनियम 1988
 (D) धारा 112 मोटर यान अधिनियम 1988
81. इरडा अधिनियम, 1999 की धारा ----- में इरडा के कार्यों को परिभाषित किया गया है –
 (A) 12
 (B) 13
 (C) 14
 (D) 16
82. वर्ष 2013 में , इरडा ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान 26 प्रतिशत से बढ़ाकर ----- प्रतिशत करने का प्रयास किया ।
 (A) 37
 (B) 41
 (C) 49
 (D) 57
83. 2021 के केन्द्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर ----- प्रतिशत कर दी गई है।
 (A) 50
 (B) 65
 (C) 70
 (D) 74

84. Burglary insurance is a type of insurance policy that recompenses for loss or damage of -
 (A) Jewellery
 (B) Cash
 (C) Stock of goods
 (D) All of above
85. Theft insurance is an insurance policy that protects against
 (A) Different Kinds of theft
 (B) Burglary
 (C) Robbery
 (D) All of above
86. Case related to Double insurance -
 (A) M/S Jalpach India Ltd vs. United India Insurance Company 2012
 (B) Edward Vs. London Assurance Company 1946
 (C) A & B Both
 (D) None of above
87. Case related to "Life Insurance business," definition is -
 (A) LIC Vs Vishwanath verma, 1994
 (B) LIC Vs Raman kumar, 1996
 (C) LIC Vs Suresh Kumar, 1998
 (D) LIC Vs. Venkataswami 2001
88. The Government of India appointed ----- committee to lay down a road map for Privatisation of the life Insurance Sector in 1993
 (A) Bangia
 (B) R.N. Malhotra
 (C) S.K. Sinha
 (D) V.K. Singh
89. Type of personal life insurance is /are -
 (A) Whole life policy
 (B) Endowment Policy
 (C) Term Policy
 (D) All of above
90. Jivan mitra Policy is a
 (A) Endowment policy
 (B) Term Policy
 (C) Whole Life policy
 (D) None of above
91. The term 'causa proxima' means cause
 (A) Nearest
 (B) Proximate
 (C) Immediate
 (D) All of above
92. Marine Insurance Covers the loss or damage of
 (A) ships & Cargo
 (B) Terminals
 (C) A & B both
 (D) None of above
84. संधमारी बीमा एक प्रकार की बीमा पालिसी है जो नुकसान या क्षति की भरपाई करती है -
 (A) आभूषण
 (B) नकदी
 (C) सामानों का भंडार
 (D) उपरोक्त सभी
85. चोरी बीमा एक बीमा पालिसी है जो सुरक्षा प्रदान करती है - सैं
 (A) विभिन्न प्रकार की चोरी
 (B) संधमारी
 (C) डकैती
 (D) उपरोक्त सभी
86. दोहरा बीमा से सम्बंधित वाद है -
 (A) मे0 जलपक इण्डिया लि0 बनाम यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी 2012
 (B) इडवर्ड बनाम लन्दन एंश्योरेंस कम्पनी 1946
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं।
87. "जीवन बीमा व्यापार" की परिभाषा से सम्बंधित वाद है-
 (A) एल.आई.सी बनाम विश्वनाथ वर्मा, 1994
 (B) एल.आई.सी बनाम रमन कुमार, 1996
 (C) एल.आई.सी बनाम सुरेश कुमार, 1998
 (D) एल.आई.सी बनाम वेंकटास्वामी 2001
88. भारत सरकार ने 1993 में जीवन बीमा क्षेत्र के निजीकरण के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिये ----- समिति को नियुक्त किया
 (A) बांगिया
 (B) आर.एन. मल्होत्रा
 (C) एस.के. सिन्हा
 (D) वी.के.सिंह
89. वैयक्तिक जीवन बीमा का प्रकार है -
 (A) आजीवन बीमा पालिसी
 (B) बंदोबस्ती बीमा पालिसी
 (C) अवधि बीमा पालिसी
 (D) उपरोक्त सभी।
90. जीवन मित्र पालिसी है -
 (A) बंदोबस्ती पालिसी
 (B) अवधि पालिसी
 (C) आजीवन पालिसी
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं।
91. शब्द - "कासा प्राक्सिमा" का मतलब है, कारण -
 (A) निकटतम
 (B) निकट(आसन्न)
 (C) तत्काल
 (D) उपरोक्त सभी।
92. समुद्री बीमा नुकसान या क्षति को आच्छादित करता है-
 (A) जहाजों & कार्गो
 (B) टर्मिनलों
 (C) A और B दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं

93. In marine Insurance the term used for degree of proof that a vessel or Cargo has been lost
(A) Actual total Loss
(B) Constructive total Loss
(C) A & B both
(D) None of above
94. Type of endowment insurance policy is / are -
(A) Limited Payment Policy
(B) Differed Policy
(C) Pure Policy
(D) All of above
95. Contract of marine insurance defined in section ----- of the marine insurance Act 1963
(A) 03
(B) 04
(C) 05
(D) 06
96. In which section of the marine insurance Act 1963, defeasible or contingent Interest has been defined.
(A) 05
(B) 07
(C) 09
(D) 10
97. Establishment & incorporation of life Insurance corporation of India defined in section..... Of the life Insurance Corporation Act, 1956.
(A) 02
(B) 03
(C) 04
(D) 05
98. In life insurance corporation Act 1956, "Insurance Act" Mens the Insurance Act of
(A) 1938
(B) 1956
(C) 1975
(D) 1992
99. The fire Insurance business is defined under section 2 (6A) of the
(A) Insurance Act 1938
(B) Insurance Act 1956
(C) A & B Both
(D) None of above
100. In the life insurance Corporation Act 1956, "Tribunal" means a tribunal constituted under section
(A) 14
(B) 15
(C) 16
(D) 17
93. समुद्री बीमा में इस बात के प्रमाण के लिए कि जहाज या कार्गो खो गया है, शब्द प्रयोग किया जाता है -
(A) वास्तविक कुल हानि
(B) रचनात्मक कुल हानि
(C) A और B दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
94. बंदोबस्ती बीमा पालिसी का प्रकार है -
(A) सीमित संदाय पालिसी
(B) विलंबित पालिसी
(C) शुद्ध पालिसी
(D) उपरोक्त सभी ।
95. समुद्री बीमा की संविदा को समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा में परिभाषित किया गया है -
(A) 03
(B) 04
(C) 05
(D) 06
96. समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में अक्षम्य या आकस्मिक हित को परिभाषित किया गया है -
(A) 05
(B) 07
(C) 09
(D) 11
97. भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना & निगमन को जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा में परिभाषित किया गया है -
(A) 02
(B) 03
(C) 04
(D) 05
98. भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 के अन्तर्गत "बीमा अधिनियम" का अर्थ हैका बीमा अधिनियम
(A) 1938
(B) 1956
(C) 1975
(D) 1992
99. अग्नि बीमा व्यवसाय को धारा 2(6क) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है में
(A) बीमा अधिनियम 1938
(B) बीमा अधिनियम 1956
(C) A और B दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं ।
100. जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत "ट्रिब्यूनल" का अर्थ है धाराके अन्तर्गत गठित एक ट्रिब्यूनल
(A) 14
(B) 15
(C) 16
(D) 17

Rough Work / रफ कार्य

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the first most option will be considered valid.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination please hand over the Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

Note: On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.